

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. बी-11-3-2013-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13017-06-2013-Credit II (Pt) , दिनांक 26 जून 2014 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2014 के लिये संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शायी गई फसल के लिए राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीले

फसल—मूंगफली

पूर्वानुमान वर्ष 2013-14

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1	टीकमगढ़	1 निवाडी	4086
		2 पृथ्वीपुर	6096
		3 पलेरा	1704
		4 जतारा	1458
		5 मोहनगढ़	866
		6 ओरछा	2780
		7 लिधोरा	1555

(1)	(2)	(3)	(4)		
2	शिवपुरी	8 कोलारस	600		
		9 करेरा	21000		
		10 शिवपुरी	2025		
		11 नरवर	10000		
		12 पोहरी	6000		
		13 पिछोर	17000		
		14 खनियाधाना	20000		
		3	खरगोन	15 खरगोन	1214
				16 भगवानपुरा	632
				17 सैगांव	806
				18 भीकनगांव	984
				19 झिरन्या	1340
				20 कसरावद	630
		4	छिन्दवाड़ा	21 सोंसर	7540
22 छिन्दवाड़ा	886				
23 पांडुर्णा	8166				
24 अमरवाड़ा	1490				
25 मोहखेड़ा	1634				
26 चौरई	2120				
27 विछुआ	610				
28 उमरेठ	1493				
29 जुन्नारदेव	568				
30 जावद	560				
5	नीमच	31 सिंगोली	2600		
		32 खण्डवा	1279		
6	खण्डवा				
7	बड़वानी	33 बड़वानी	1849		
		34 सेंधवा	535		
		35 राजपुर	1366		
		36 निवाली	1617		
		37 पाटी	2943		
		38 पानसेमन	876		
		8	झाबुआ	39 झाबुआ	4375
				40 रानापुर	2150
9	बैतूल	41 मुलताई	1881		
		42 आमला	673		
		43 आठनेर	1067		
10	छतरपुर	44 छतरपुर	555		
		45 नौगांव	750		
		46 राजनगर	800		
		47 महाराजपुर	1950		
		48 कुक्षी	1273		
11	धार				
12	सिवनी	49 सिवनी	963		
		50 लखनादौन	883		

(1)	(2)	(3)	(4)
		51 छपारा	1230
		52 धनोरा	887
13	दतिया	53 दतिया	6090
14	अलीराजपुर	54 अलीराजपुर	7225
		55 जोबट	1063

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ

फसल—तिल

पूर्वानुमान वर्ष 2013-14

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)			
1	दतिया	1 दतिया	17186	वास्तविक		
		2 सेंबढ़ा	1619	वास्तविक		
		3 भाण्डेर	4730	वास्तविक		
		4 इन्दरगढ़	2789	वास्तविक		
2	छतरपुर	5 छतरपुर	12840			
		6 नौगांव	4508			
		7 राजनगर	30840			
		8 विजावर	6735			
		9 गौरीहार	3366			
		10 बड़ामल्हरा	4820			
		11 लौंडी	4347			
		12 छुवारा	1955			
		13 चन्द्रला	4410			
		14 महाराजपुर	4765			
		3	टीकमगढ़	15 निवाडी	2833	
				16 पृथ्वीपुर	2554	
				17 पलैरा	4301	
18 टीकमगढ़	3344					
19 बल्देवगढ़	1681					
20 जतारा	3001					
21 खडगापुर	1863					
22 मोहनगढ़	885					
23 छिनोरा	4160					
24 लखनादौन	1028					
4	सिवनी	25 पवई	3815	वास्तविक		
		26 पन्ना	2342	वास्तविक		
5	पन्ना	27 शाहनगर	1177	वास्तविक		
		28 अजयगढ़	5675	वास्तविक		
		29 देवेन्द्र नगर	2413	वास्तविक		
		30 गुन्नौर	2606	वास्तविक		

(1)	(2)	(3)	(4)	
		31 अमानगंज	5183	वास्तविक
		32 रैपुरा	2019	वास्तविक
6	शिवपुरी	33 नरवर	1010	
		34 करैरा	1955	
		35 पोहरी	825	
		36 पिछोर	1000	
		37 खनियाधारा	1000	
7	ग्वालियर	38 ग्वालियर	2270	
		39 डबरा	3012	
		40 चीनोर	1168	
8	मुरैना	41 केलारस	950	
		42 सबलगढ़	635	
		43 जौरा	1485	
9	भिण्ड	44 भिण्ड	1918	वास्तविक
		45 लहार	2861	वास्तविक
		46 मेहगांव	974	वास्तविक
		47 गोहद	1199	वास्तविक
		48 रोन	964	वास्तविक
		49 मिहोना	912	वास्तविक
		50 अटेर	806	
10	श्योंपुर	51 विजयपुर	1557	
		52 कराहल	3165	
		53 वीरपुर	1695	
		54 बड़ौदा	1409	
		55 श्योंपुर	1775	
11	सीधी	56 गोपदबनास	2410	
		57 कुसमी	1350	
		58 मझौली	2370	
		59 रामपुरनेकिन	1720	
12	शहडोल	60 ब्योहारी	1300	
		61 जयसिंह नगर	1500	
		62 जेतपुर	1555	
13	उमरिया	63 मानपुर	1835	
		64 चांदिया	1055	
14	कटनी	65 मुण्डवारा	895	
		66 बड़वारा	835	
15	रीवा	67 त्योथर	529	
		68 हनुमना	1249	
16	सतना	69 मझगवां	1265	
		70 रघुराजनगर	1940	
		71 नागौर	1930	
		72 उचेहरा	800	
		73 मैहर	1510	

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ

फसल—कोदोकुटकी

पूर्वानुमान वर्ष 2013-14

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1	उमरिया	1 बांधवगढ़	3131
		2 पाली	2225
		3 मानपुर	3457
		4 चंदिया	3151
		5 नौराजाबाद	2356
2	रीवा	6 हनुमना	894
		7 जैतपुर	2311
3	शहडोल	8 ब्यौहारी	2540
		9 जेसिंहनगर	2511
		10 पुष्पराजगढ़	12113
4	अनुपपुर	11 जैतहरी	2162
		12 अनूपपुर	583
		13 गोपदवनास	2350
		14 सिहावल	1195
5	सीधी	15 कुसमी	3585
		16 मझोली	3200
		17 रामपुरनेकिन	2670
		18 हरई	11394
		19 तामियां	7612
		20 परासिया	512
		21 जामई (जुन्नारदेव)	3472
6	छिन्दवाड़ा	22 अमरवाड़ा	1180
		23 नैनपुर	2151
		24 मण्डला	719
		25 बिछिया	5085
		26 निवास	5468
		27 घूगरी	8649
		28 नारायणगंज	3840
		29 कुण्डम	4501
7	मण्डला	30 ढीमरखेड़ा	851
		31 बड़वारा	1165
8	जबलपुर	32 भैंसदेही	1580
		33 लखनादौन	2690
9	कटनी	34 घनौरा	702
		35 घन्सौर	3322
		36 छपारा	1495
		37 बैहर	10303
		38 परसवाड़ा	2195
10	बैतूल	39 खालवा	722
		40 शाहपुर	17091
11	सिवनी	41 डिण्डोरी	18872
		42 नरसिंहपुर	818
12	बालाघाट	43	
		44	
13	खण्डवा	45	
		46	
14	डिण्डोरी	47	
		48	
15	नरसिंहपुर	49	
		50	

## राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ

फसल—कपास		पूर्वानुमान वर्ष 2013-14	
स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1	खण्डवा	1 खण्डवा	18547
		2 पधाना	6705
		3 हरसूद	745
		4 खालवा	1580
		5 पुनासा	20800
2	बुरहानपुर	6 बुरहानपुर	17872
		7 नेपानगर	7129
		8 खकनार	17899
3	बड़वानी	9 बड़वानी	7822
		10 ठीकरी	5950
		11 राजपुर	11222
		12 पानसेमल	9160
		13 सेंधवा	4383
		14 निवाली	1710
		15 पाटी	1527
		16 अंजड़	7107
		17 बरला	5569
		18 खरगौन	17492
4	खरगौन	19 भगवानपुरा	13547
		20 सेगांव	9044
		21 भीकनगांव	26387
		22 झिरन्या	15408
		23 कसरावद	27430
		24 महेश्वर	20172
		25 बडवाह	32863
		26 गोगांव	14292
		27 पाण्डुर्णा	3408
		28 विछुआ	1542
5	छिन्दवाड़ा	29 सौंसर	22800
		30 बदनावर	3715
6	धार	31 सरदारपुर	5141
		32 मनावर	35100
		33 धर्मपुरी	11000
		34 गधवानी	6695
		35 कुक्षी	26272
		36 दही	4650
		37 कन्नौद	1474
7	देवास	38 खातेगांव	2948
		39 बागली	1104

(1)	(2)	(3)	(4)
8	झाबुआ	40 सतवासा	1474
		41 झाबुआ	4173
		42 पेटलावद	6815
		43 थांदला	4400
		44 मेघनगर	2500
9	अलीराजपुर	45 राणापुर	1500
		46 अलीराजपुर	2750
		47 जोवट	4160
		48 भामरा	715
10	रतलाम	49 पिपलोदा	8066
		50 रतलाम	2517
		51 बाजना	828
		52 सैलाना	3501
		53 रावटी	5225

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल—ज्वार

पूर्वानुमान वर्ष 2013-14

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1	श्योपुर	1 श्योपुर	687
2	ग्वालियर	2 ग्वालियर	2745
3	भिण्ड	3 मेहगांव	800
		4 गोहद	500
		5 लहार	1200
		6 खण्डवा	2688
		7 पंधाना	1660
4	खण्डवा	8 खालवा	1620
		9 बुरहानपुर	2785
		10 खकनार	2155
		11 नेपानगर	3245
5	बुरहानपुर	12 रामपुर	1695
		13 चुरहट	1770
		14 गोपदबनास	4850
		15 मझौली	1495
		16 सिंहावल	2170
7	पन्ना	17 अजयगढ़	2125
8	सतना	18 मझगवां	2544
9	रीवा	19 त्योंथर	1000
		20 नईगढ़ी	871
		21 सिरमोर	1527

(1)	(2)	(3)	(4)
		22 हनुमना	856
		23 मनगवां	907
		24 जवां	5236
		25 मउगंज	696
10	सिवनी	26 सिवनी	514
		27 छपारा	616
11	झाबुआ	28 झाबुआ	1209
		29 रानापुर	665
12	खरगौन	30 खरगौन	1847
		31 सैगांव	2713
		32 भगवानपुरा	3236
		33 झिरन्या	7179
		34 बड़वाह	2059
		35 कसरावद	4593
		36 महेश्वर	2389
		37 भीकनगांव	2249
		38 गोगांव	1299
13	अलीराजपुर	39 जोवट	3952
		40 अलीराजपुर	7248
14	छतरपुर	41 चंदोला	3006
		42 गौरीहार	1490
		43 लवकुशनगर	1350
15	टीकमगढ़	44 सिंहोरा	723
16	बड़वानी	45 बड़वानी	3260
		46 ठीकरी	909
		47 सेंधवा	5596
		48 राजपुर	7282
		49 पानसेमल	3493
		50 निवाली	5464
		51 बरला	3334
		52 पाटी	7497
17	कटनी	53 विजयराघोगढ़	571
		54 बड़वारा	1370
18	छिन्दवाड़ा	55 तामिया	1059
		56 जुन्नारदेव	2268
		57 परासिया	1007
		58 अमरवाड़ा	2300
		59 चौरई	826
		60 सोसर	2020
		61 विछुआ	2529
		62 पाण्डुर्णा	7476
		63 मोखड़	1752
		64 उमरेट	934



(1)	(2)	(3)	(4)
19	धार	65 कुक्षी	7341
		66 गंधवानी	3285
		67 मनावर	1295
		68 दही	1840
		69 सरदारपुर	547
20	नीमच	70 मनासा	901
21	शाजापुर	71 मोमनबडोडिया	500
		72 गुलाना	500
		73 शाजापुर	600
22	राजगढ़	74 राजगढ़	804
		75 खिलचीपुर	569
		76 जीरापुर	808
23	बैतूल	77 बैतूल	933
		78 शाहपुर	1302
		79 मुल्ताई	3591
		80 भैंसदेही	6186
		81 आठनेर	2608
		82 चिंचोली	756
		83 घोड़ाडोंगरी	1277
24	नरसिंहपुर	84 गाडरवारा	1031
		85 करेली	788